



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022020-216304  
CG-DL-E-21022020-216304

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2020/माघ 30, 1941

No. 688]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2020/MAGHA 30, 1941

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

**का.आ. 756(अ).**— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा दिनांक 22 जुलाई 2019 के सं. एस.ओ. 2614 (ई) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हैं जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार यह मत रखते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है और ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और अनुप्रयोग**— (1) इस आदेश को इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।  
(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।  
(3) यह आदेश तालिका-1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट इस्पात और इस्पात उत्पादों और तालिका-2 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट वस्तु एवं सामग्रियों पर लागू होगा लेकिन यह स्वदेश में विनिर्मित ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों पर लागू नहीं होगा, जो निर्यात के लिए हैं और जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किसी अन्य विनिर्देशन के अनुरूप है।
2. **मानकों की अनुरूपता और अनिवार्य अपेक्षाएं**— (क) तालिका-1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इस्पात और इस्पात उत्पाद उक्त तालिका-1 के कॉलम (5) में निर्दिष्ट तिथियों से उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप होगा।

(ख) स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब को उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुरूप तालिका 1 के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट स्टेनलेस इस्पात उत्पादों से ही बनाए जाएंगे और उन पर मानक चिन्ह होंगे और उनके साथ इनपुट सामग्री का परीक्षण प्रमाणपत्र लगाया जाएगा।

(ग) तालिका 2 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामान भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) विनियम 2018 की अनुसूची-II की योजना- IV के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से अनुरूपता प्रमाणपत्र के तहत उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

3. मानक चिन्ह का अनिवार्य उपयोग – तालिका 1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इस्पात और इस्पात उत्पाद पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची- II की योजना- I के अनुसार ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न होना चाहिए।
4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी - भारतीय मानक ब्यूरो इस आदेश में निर्दिष्ट इस्पात और इस्पात उत्पादों, वस्तु एवं सामग्रियों के संबंध में प्रमाणन एवं प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
5. उल्लंघन के लिए सजा - जो भी व्यक्ति इस आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा।
6. भारतीय मानकों में संशोधन अथवा सुधार प्रवृत्त होने की तिथि - यदि तालिका 1 में निर्दिष्ट किसी भी भारतीय मानक में ब्यूरो द्वारा कोई संशोधन अथवा सुधार किया जाता है, तो उस पर यह आदेश ब्यूरो द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की गई तिथि से प्रभावी होगा।

#### तालिका-1

क्रम सं.	भारतीय मानक	इस्पात और इस्पात उत्पाद	भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) कोड (आईटीसी(एचएस))	कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आईएस 1785 (भाग-1) : 1983	प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए प्लेन हार्ड-ड्रॉन इस्पात की तार: भाग 1 कोल्ड - ड्रॉन स्ट्रेस रिलिब्ड तार के लिए विनिर्देशन	72171010 72179091 72179099	तत्काल प्रभाव से
2.	आईएस 1785 (भाग-2) : 1983	प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए प्लेन हार्ड-ड्रॉन इस्पात की तार; ड्रॉन तार के रूप में भाग 2	72171010 72179091 72179099	तत्काल प्रभाव से
3.	आईएस 6003 : 2010	प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए इन्डेंटिड तार - विनिर्देशन	72171010 72179091 72179099	तत्काल प्रभाव से
4.	आईएस 6006 : 2014	प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए अनकोटिड स्ट्रेस रिलिब्ड स्ट्रैंड - विनिर्देशन	73121030	तत्काल प्रभाव से
5.	आईएस 13620 : 1993	फ्यूजन बॉन्डिड इपोक्सी कोटिड रिइनफोर्सिंग बार्स- विनिर्देशन	72142090 72159090	तत्काल प्रभाव से
6.	आईएस 14268 : 1995	प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए अनकोटिड स्ट्रेस रिलिब्ड लो रिलेक्सेशन की सात (प्लाई) वायर स्ट्रैंड के लिए विनिर्देशन	73121030	तत्काल प्रभाव से
7.	आईएस 277 : 2018	गेलवेनाईज्ड स्टील शीट्स (प्लेन एवं कोरुगेटेड) - विनिर्देशन	72104100 72104900 72123010 72123090	तत्काल प्रभाव से

8.	आईएस 2002 : 2009	मध्यवर्ती और उच्च ताप सेवा जिसके अंतर्गत बॉयलर भी है, के लिए दाब पात्र के लिए स्टील प्लेट	72085110 72085120 72085210 72085220 72111300	72111420 72111490 72119011 72119090	तत्काल प्रभाव से	
9.	आईएस 2041 : 2009	मध्यम और निम्न ताप पर प्रयुक्त दाब पात्रों के लिए इस्पात प्लेट - विनिर्देशन	72085110 72085120 72085210 72085220	72111300 72111420 72111490 72119090	तत्काल प्रभाव से	
10.	आईएस 2830 : 2012	साधारण अवसंरचनात्मक प्रयोजनों के लिए इस्पात में पुनर्वेल्लन के लिए कार्बन इस्पात डलवा बिलेट इनगोट, बिलेट, ब्लूम और सिल्ली - विनिर्देशन	72061090 72071190 72071290 72071920 72071990		तत्काल प्रभाव से	
11.	आईएस 1786 : 2008	8 एमएम से कम आकार के उच्च शक्ति वाले विरूपित इस्पात छड़ों और तारों को छोड़कर कंक्रीट रिइंफोर्समेंट के लिए उच्च शक्ति वाली विरूपित इस्पात छड़ें और तार - विनिर्देशन	72131090 72142090		तत्काल प्रभाव से	
12.	आईएस 648 : 2006	शीत बेल्लित नॉन-ओरिएंटेड विद्युत इस्पात शीट तथा पट्टी - पूर्णतया प्रक्रियागत प्रकार की विनिर्देशन	72251920 72261920		तत्काल प्रभाव से	
13.	आईएस 3024 : 2015	ग्रेन ओरिएंटेड विद्युत इस्पात शीट तथा पट्टी	72251100 72261100		तत्काल प्रभाव से	
14.	आईएस 15391 : 2003	शीत बेल्लित नॉन-ओरिएंटेड विद्युत इस्पात शीट तथा स्ट्रीप-अर्ध प्रसंस्कृत प्रकार - विनिर्देशन	72251920 72261920 72091720	72091730 72091790	तत्काल प्रभाव से	
15.	आईएस 1875 : 1992	कार्बन स्टील बिलेट्स, ब्लूमस, फोर्जिंग के लिए स्लेब्स व बार्स	72071120 72071190 72071220 72071290 720719	72072010 72072090 72149190 72149990 72159090	72249040 72249091 72249099 72283029 72286099	तत्काल प्रभाव से
16.	आईएस 3502 : 2009	स्टील चेकर्ड प्लेट्स	72081000 720840 721114 721190	72254019 72259900 72269130	72269190 72269910 72269990	तत्काल प्रभाव से
17.	आईएस 2062 : 2011	हॉट रोलड मीडियम एंड हाई टेन्साइल स्ट्रक्चरल स्टील, सिर्फ 6 एमएम से कम व्यास एवं मोटाई वाले बार्स तथा रॉड्स को तथा 50 एमएम x 50 एमएम x 6 एमएम के स्ट्रक्चरल्स को छोड़कर	72082510 72082520 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610	72083910 72083920 72083930 72083940 72083990 72085110 72085120 72085130 72085140	72111420 72111430 72111440 72111450 72111460 72111490 72119012 72119090 72139190	तत्काल प्रभाव से

			72083620	72085190	72139990	
			72083630	72085210	72149190	
			72083640	72085220	72149990	
			72083690	72085230	72139090	
			72083710	72085240	72139990	
			72083720	72085290	72149990	
			72083730	72085310	72161000	
			72083740	72085320	72162100	
			72083790	72085330	72162200	
			72083810	72085340	72163100	
			72083820	72085390	72163200	
			72083830	72089000	72163300	
			72083840	72111300	72164000	
			72083890	72111410	72165000	
18.	आईएस 432 : भाग 1 : 1982	माइल्ल स्टील तथा मीडियम टेन्साइल स्टील बार्स और कंक्रीट रिइन्फोर्समेंट के लिए हाई-ड्रान स्टील वायर : भाग 1 माइल्ल स्टील तथा मीडियम टेन्साइल स्टील बार्स	72139190 72139990 72149190 72149990 72159090		72279090 72283019 72283029 72286099	तत्काल प्रभाव से
19.	आईएस 432 : भाग 2 : 1982	माइल्ल स्टील तथा मीडियम टेन्साइल स्टील बार्स और कंक्रीट रिइन्फोर्समेंट के लिए हाई-ड्रान स्टील वायर : भाग 2 माइल्ल स्टील तथा मीडियम टेन्साइल स्टील बार्स	721710 721790 72299031 72299033		72299040 72299059 72299 090	तत्काल प्रभाव से
20.	आईएस 513 (भाग 1) : 2016	कोल्ड रिड्यूस्ड कार्बन स्टील शीट्स एंड स्ट्रिप भाग 1 कोल्ड फार्मिंग एंड ड्राइंग परपस (छठा संशोधन)	720915 720916 720917 720918 720925 720926 720927	720928 72099000 721123 72119090 72255010 72255020 72259900	72269210 72269220 72269920 72269930 72269940 72269952 72269990	तत्काल प्रभाव से
21..	आईएस 513 (भाग 2) : 2016	कोल्ड रिड्यूस्ड लो कार्बन स्टील शीट्स एंड स्ट्रिप भाग 2 हाई टेन्साइल एंड मल्टी फेज स्टील (छठा संशोधन)	720915 720916 720917 720918 720925 720926 720927	720928 72099000 721123 72119090 72255010 72255020 72259900	72269210 72269220 72269920 72269930 72269940 72269952 72269990	तत्काल प्रभाव से
22.	आईएस 1079 : 2017	हॉट रोल्ड कार्बन स्टील शीट, प्लेट एंड स्ट्रिप	720825 720826 720827 720836 720837 720838 720839	720840 720852 720853 720854 72089000 72111300 721114	721119 72119090 722530 722540 72259900 722691 722699	तत्काल प्रभाव से
23.	आईएस 2879	मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के लिए माइल्ल स्टील	72061090	72071990	72149990	तत्काल प्रभाव से

	: 1998		72071190 72071290 72071920	72132010 72139110 72139910	72241000 72249091 72249099 72279090	
24.	आईएस 5872 : 1990	कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स (बॉक्स स्ट्रैपिंग्स)	721123 721129 721220	721230 721240 721250 72262030	72269210 72269930 72269952 72269990	तत्काल प्रभाव से
25.	आईएस 5986 : 2017	हॉट रॉल्ल्ड स्टील शीट, फार्मिंग तथा फ्लैगिंग के लिए प्लेट तथा स्ट्रिप	720825 720826 720827 720836 720837 720838 720839 720840 720851	720852 720853 720854 72089000 72111300 721114 721119 72119012 72119090	72253090 72254013 72254019 72254020 72254030 72259900 722691 722699	तत्काल प्रभाव से
26.	आईएस 6240 : 2008	लो प्रेशर लिक्विफायबल गैस सिलिंडर के विनिर्माण के लिए हॉट रोल्ड स्टील प्लेट (6 एमएम तक) शीट तथा स्ट्रिप	720825 720826 720827 720837 720838 720839	720852 720853 720854 72089000 721114 721119	72119090 72253090 722540 72259900 722691 722699	तत्काल प्रभाव से
27.	आईएस 7283 : 1992	इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए ब्राइट बार्स तथा मशीनीकृत हिस्सों के उत्पादन के लिए हॉट रॉल्ल्ड बार्स	721320 721391 721399 72143000 721491	721499 72159090 72279090 72283021 72283022	72283023 72283029 72286091 72286092 72286093 72286099	तत्काल प्रभाव से
28.	आईएस 7887 : 1992	सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए माइल्ल्ड स्टील वायर रॉड		72139190 72139990 72279090		तत्काल प्रभाव से
29.	आईएस 10748: 2004	वेल्लिड ड्यूब्स और पाइपों के लिए हॉट रोल्ल्ड स्टील स्ट्रिप	720825 720826 720827 720836 720837	720838 720839 72089000 721114 721119	72119090 72253090 72259900 722691 722699	तत्काल प्रभाव से
30.	आईएस 11513 : 2017	कोल्ड रोलिंग उद्देश्य के लिए हॉट रोल्ल्ड कार्बन स्टील स्ट्रिप	720825 720826 720827 720836 720837	720838 720839 72089000 721114 721119	721190907 72253090 72259900 722691 722699	तत्काल प्रभाव से
31.	आईएस 15647 : 2006	वेल्लिड ड्यूब्स और पाइपों के लिए हॉट रोल्ल्ड स्टील नैरो विड् स्ट्रिप		721114 721119 72119090		तत्काल प्रभाव से

32.	आईएस 7904 : 2018	हाई कार्बन स्टील वायर रॉड्स - विनिर्देशन	72139190 72139990			तत्काल प्रभाव से
33.	आईएस 14246 : 2013	लगातार पहले से पेंट किए गए गेल्बनाइज्ड स्टील शीट्स और क्वॉयल्स	72107000 72124000	72259900 72109090	तत्काल प्रभाव से	
34.	आईएस 15965 : 2012	पहले से पेंट किए गए अल्यूमिनियम जिंक अलॉय मेटालिक कोटिड स्टील स्ट्रीप और शीट (प्लेन)	72107000 72124000	72259900 72109090	तत्काल प्रभाव से	
35.	आईएस 280:2006	सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए माइल्ड स्टील वायर	721710 721720 721730			तत्काल प्रभाव से
36.	आईएस 1835 : 1976	रस्सियों के लिए राउण्ड स्टील वायर	721710 721720 72179091	72179099 72299033 72299040	तत्काल प्रभाव से	
37.	आईएस 3975: 1999	केबलों को आर्मर करने हेतु लो कार्बन गेल्बेनाइज्ड स्टील वायर्सफॉर्मर्ड वायर्स और टेप्स	721720 721790 72179090			तत्काल प्रभाव से
38.	आईएस 4368: 1967	सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों हेतु फॉर्जिंग के लिए अलॉय स्टील विलेट्स, ब्लूमस और स्त्रैब्स।	72249091 72249099			तत्काल प्रभाव से
39.	आईएस 4454 (भाग 1) : 2001	मेकेनिकल स्प्रिंग्स हेतु स्टील वायर्स, भाग 1 कोल्ड ड्राउन अनअलॉयड स्टील वायर।	721710 721720 721730 72179099	72292000 72299011 72299012 72299016	72299032 72299033 72299040 72299090	तत्काल प्रभाव से
40.	आईएस 4454 (भाग 2) : 2001	मेकेनिकल स्प्रिंग्स हेतु स्टील वायर, भाग 2: ऑयल हार्डेन और टेम्पर्ड स्टील वायर।	721710 72179091 72179099 72299034			तत्काल प्रभाव से
41.	आईएस 4824: 2006	टायरों हेतु बीड वायर।	721710 721730 72179099			तत्काल प्रभाव से
42.	आईएस 11169 (भाग 1) : 1984	कोल्ड शीर्ष/कोल्ड निष्कासन अनुप्रयोगों हेतु स्टील्स भाग-1 राउट कार्बन और लो अलॉय स्टील्स	72132020 72139120 72139920 72141080 72149990	721710 72279040 72279090 72283020 72284000	72286012 72286099 72299040 72299090	तत्काल प्रभाव से
43.	आईएस 11587 : 1986	अवसंरचनात्मक मौसम प्रतिरोधक स्टील।	7208 7209 7211 7212 72141090 72149190 72149990	7216 72253090 72254019 72254020 72254030 722550 722691 722692 72269910	72269920 72269930 72269940 72269951 72269952 72269990 72279090 722870	तत्काल प्रभाव से
44.	आईएस	अग्नि प्रतिरोधक स्टील - विनिर्देशन।	7208	72253090	72269920	तत्काल प्रभाव से

	15103 : 2002		7209 7211 7212 72141090 72149190 72149990 7216	72254019 72254020 72254030 722550 722691 722692 72269910	72269930 72269940 72269951 72269952 72269990 72279090 722870	
45.	आईएस 15914 : 2011	बेल्डिड गैस सिलेण्डर के विनिर्माण हेतु उच्च टेनसाइल तीव्रता वाले फ्लैट रोलड स्टील प्लेट (6 एमएम तक), शीट और स्ट्रिप।	720825 720826 720827 720836 720837 720838 720839 720851 720852	720853 720854 7209 7211 72253090 72254019 72254020 72254030 722550	722691 72269910 72269920 72269930 72269940 72269951 72269952 72269990	तत्काल प्रभाव से
46.	आईएस 15961 : 2012	हॉट डिप अल्युमिनियम - जिंक अलॉय मेटैलिक कोटिड स्टील स्ट्रिप और शीट (प्लेन)।		72106100 72125090 72259900 72269990		तत्काल प्रभाव से
47.	आईएस 15962 : 2012	अधिक भूकंपीय प्रतिरोधक के साथ अवसंरचना के निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल स्टील।	720840 720851 720852 721113 721114 7216 721119	72119090 72141090 72149190 72149990 72255030 72259900 72269110	72269120 72269130 72269190 722870	तत्काल प्रभाव से
48.	आईएस 6527: 1995	स्टेनलेस स्टील वायर रॉड		722100		तत्काल प्रभाव से
49.	आईएस 6528 :1995	स्टेनलेस स्टील वायर	72230091 72230092		72230099	तत्काल प्रभाव से
50.	आईएस 6603 : 2001	स्टेनलेस स्टील बार्स और फ्लैट्स	722211 722219		722220 722230	तत्काल प्रभाव से
51.	आईएस 5522 : 2014	बर्तनों हेतु स्टेनलेस स्टील शीट्स और स्ट्रिप - विनिर्देशन	72191300 72191400 721923 721924 721932	721933 721934 721935 72199012 72199013	72199090 72201290 72202090 72209090	तत्काल प्रभाव से
52.	आईएस 6911: 2017	स्टेनलेस स्टील प्लेट, शीट और स्ट्रिप - विनिर्देशन	7219	7220	-	तत्काल प्रभाव से
53.	आईएस 15997: 2012	बर्तनों और रसोई उपकरणों हेतु लो निकेल ऑस्टेनितिक स्टेनलेस स्टील शीट और स्ट्रिप - विनिर्देशन	72191300 72191400 72192320 72192390 72192421	72192490 72193220 72193290 72193320 72193390	72193590 72199012 72199013 72199090 72201290	तत्काल प्रभाव से

			72192422 72192423 72192429	72193420 72193490 72193520	72202090 72209090	
54.	आईएस 1110 : 1990	फैरोसिलिकन - विनिर्देशन	72022100			23 अप्रैल, 2020
55.	आईएस 4409 : 1973	फेरोनिकल हेतु विनिर्देशन	720260 00			23 अप्रैल, 2020
56.	आईएस 1029 : 1970	हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रीप (बेलिंग) हेतु विनिर्देशन	72111910 721119 20 721119 30 721119 40	721119 50 721119 60 721119 90 722692 10	7226 92 99 7226 99 51 7226 99 90	23 अप्रैल, 2020
57.	आईएस 2385 : 1977	कोल्ड-रिड्यूज्ड टिन प्लेट और कोल्ड-रिड्यूज्ड ब्लैक प्लेट के लिए क्रायल के रूप में हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील शीट और स्ट्रीप हेतु विनिर्देशन	720825 720826 72082710 720827 20 720827 30 720827 40	720827 90 720836 720837 720838 720839 10 7208 3920	7208 39 30 7208 39 40 7208 39 90 7225 30 90 7225 99 00	23 अप्रैल, 2020
58.	आईएस 3039 : 1988	जहाजों के ढाँचों के निर्माण के लिए स्ट्रक्चरल स्टील हेतु विनिर्देशन	7208 40 7208 51 7208 52 7208 90 7211 13 721114 10	721114 20 721114 90 721119 10 721119 20 721119 90 721410 90	7214 91 721499 90 721550 90 721590 90 7216	23 अप्रैल, 2020
59.	आईएस 9550 2001	ब्राइट स्टील बार्स - v विनिर्देशन	721491 10 721550 10 722810 10	722810 90 722830 11 722830 19	722850 10 722850 90 722860 11 722860 12	23 अप्रैल, 2020
60.	आईएस 3748 : 1990	टूल और डाइ स्टील्स विनिर्देशन -	72141090 72149190 72149990 72155090	72159090 72281010 72281090 72283011	72283019 72283024 72283029	23 अप्रैल, 2020
61.	आईएस 5517 : 1993	हार्डनिंग और टेम्परिंग हेतु स्टील - विनिर्देशन	72084090 72085190 72085290	72089000 72149190 72149990	72299034 72299090 73261910 73261990	23 अप्रैल, 2020
62.	आईएस 7291 : 1981	तीव्र गति वाले टूल स्टील्स हेतु विनिर्देशन	72042920 7208 7209	72249030 72249040 72249091	72249099 722620 72271000 722810	23 अप्रैल, 2020
63	आईएस 7494 : 1981	इंजनों के आंतरिक प्रज्वलन के लिए वाल्वों की स्टील हेतु विनिर्देशन	72141090 721491 72149990	72281090 72283029	72284000 722850 72286099	23 अप्रैल, 2020
64.	आईएस 12146 : 1987	प्रेशर वेसल्स के लिए कार्बन मँगनीज, स्टील फोर्जिंग हेतु विनिर्देशन	72084090 72085190 72085290	72089000 72149190 72149990	72299034 72299090 73261910	23 अप्रैल, 2020



					73261990	
65.	आईएस 16585 : 2016	चुंबकीय सामग्रियाँ – वैयक्तिक सामग्री – अर्ध-प्रसंस्कृत अवस्था में डिलीवर की गई लोहांश आधारित एमोरफस स्ट्रीप हेतु विनिर्देशन	722519 72261990 72269930 72269990			23 अप्रैल, 2020
66.	आईएस 2831 : 2012	स्ट्रक्चरल स्टील (सामान्य गुणवत्ता वाले) में रि-रोलिंग हेतु कार्बन स्टील कॉस्ट बिलेट, इनगोट्स, बिलेट्स, ब्लूम और स्लैब - विनिर्देशन	720610 90 720711 90 720712 90 720719 10 720719 20 720719 90 720720 90			23 अप्रैल, 2020
67.	आईएस 1148: 2009	अवसंरचनात्मक उद्देश्यों के लिए स्टील रिबेट बार्स (मध्यम और उच्च टेनसाइल)	72149990 72286099			इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
68.	आईएस 1673: 1984	माइल्ड स्टील वायर, कोल्ड हेडिंग गुणवत्ता के लिए विनिर्देशन	72179019	2179091	72179099	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
69.	आईएस 1812: 1982	लकड़ी स्कू के विनिर्माण के लिए कार्बन स्टील वायर	72171010 72171020 72171030 72172010	72172020 72172030 72179019 72179091	7217909 72299031 72299033 72299059 72299090	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
70.	आईएस 2507: 1975	स्प्रिंग्स हेतु कोल्ड रोलड स्टील स्ट्रिप के लिए विनिर्देशन	72091510 72091520 72091530 72091590 72091610 72091620 72091630 72091690 72091710 72091720 72091730 72091790 72091810 72091820 72091830 72091890 72092510	72092520 72092530 72092820 72092830 72092890 72099000 72112310 72112320 2112330 72112340 72112350 72112390 72112910 72112920 72112930 72112940 72112950	72112960 72112990 72119090 72255010 72255020 72255030 72259900 72269210 72269220 72269230 72269910 72269920 72269930 72269940 72269952 72269953 72269990	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
71.	आईएस 2255: 1977	मशीन स्कू के विनिर्माण के लिए माइल्ड स्टील वायर रॉड के लिए विनिर्देशन (कोल्ड हेडिंग प्रक्रिया के माध्यम से)	72132020 72139120 72139920			इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
72.	आईएस 3195: 1992	वलयूट और हेलिकल स्प्रिंग्स (रेलवे रोलिंग स्टॉक के लिए) के विनिर्माण	721410107 214109072	72149910 72149990	72283029 72285090	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह

		के लिए इस्पात - विनिर्देशन	142010721 49190	72283019 72283022	72286092 72286099	
73.	आईएस 3431: 1982	ऑटोमोटिव सस्पेंशन के लिए बल्यूट, हेलिकल और लेमिनेटेड स्प्रिंग्स के विनिर्माण के लिए इस्पात हेतु विनिर्देशन	72141010 72141090 72142010 72149190	72149910 72149990 72283019 72283022	72283029 72285090 72286092 72286099 72282000	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
74.	आईएस 3885-भाग-1 : 1992	लेमिनेटेड स्प्रिंग्स (रेलवे रोलिंग स्टोक) भाग 1 फ्लैट सेक्शन के निर्माण के लिए इस्पात - विनिर्देशन	72149190 72149910 72149990	72283019 72283022 72283029	72285090 72286092 72286099	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
75.	आईएस 3885-भाग- 2: 1992	लेमिनेटेड स्प्रिंग्स (रेलवे रोलिंग स्टोक) के विनिर्माण के लिए भाग 2 : रिब और गूव सेक्शन इस्पात - विनिर्देशन	72142010 72149190 72149910 72149990	72283019 72283022 72283029	72285090 72286092 72286099	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
76.	आईएस 4223: 1975	अम्ब्रेला रिब्स हेतु इस्पात वायर के लिए विनिर्देशन	72171010 72172010		72179091 72179099	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
77.	आईएस 4224: 1972	स्टेपल, पिन और क्लिप हेतु स्टील वायर के लिए विनिर्देशन	72171020 72171030	72179099 72299033	72299052 72299059 72299090	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
78.	आईएस 4397 : 1999	बॉल और रोलर धारित केज/रिटेनर्स के लिए कोल्ड रोलड कार्बन स्टील स्ट्रिप्स - विनिर्देशन	7209 721123	721129	72119090	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
79.	आईएस 4398 : 1994	बॉल और रोलर्स और बियरिंग रेसर्स के विनिर्माण के लिए कार्बन - क्रोमियम स्टील - विनिर्देशन	72249091 72249099 72279030 72279090	72283019 72283029 72284000 72285090	72286012 72286099 72299059 72299090	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
80.	आईएस 6902: 1973	स्पोक्स हेतु स्टील वायर के लिए विनिर्देशन	72171010 72172010 72179019	72179091 72179099 72299033	72299034 72299040 72299059 72299090	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
81.	आईएस 6967: 1973	विद्युत से वेल्ड किए राउंड लिंक चैन हेतु इस्पात के लिए विनिर्देशन	72071120 72071190 72071220 72071290 72071920 72071990	72072010 72072090 72141090 72142090 72149190 72149990	72249091 72249099 72284000 72285090 72286099	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
82.	आईएस 7226: 1974	सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए कोल्ड रोलड मध्यम, उच्च कार्बन और लो अलॉय स्टील स्ट्रिप के लिए विनिर्देशन	72112310 72112320 72112330 72112340 72112350	72112390 72112910 72112920 72112930 72112940 72112950	72112960 72112390 72269210 72269930 72269952 72269990	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
83.	आईएस 7557: 1982	कोल्ड फोर्ज्ड रिबेट के विनिर्माण हेतु स्टील वायर (20एमएम तक) के लिए विनिर्देशन	72139120 72139190	72179019 72179091	72285090 72286099	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह

			72139920 72139990 72149990 72171010	72179099 72279040 72279090 72284000	72299033 72299040 72299059 72299090	
84.	आईएस 8052 : 2006	सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए स्प्रिंग्स, रिबेट्स और स्क्रू के उत्पादन हेतु स्टील इंगोट, बिलेट्स और ब्लूम्स	72071120 72071190 72071220	72071290 72071920 72071990 72072010	72072090 72241000 72241991 72241999	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
85.	आईएस 8951: 2001	उच्च कार्बन स्टील वायर रॉड के लिए स्टील कास्ट बिलेट, इंगोट्स, बिलेट्स और ब्लूम्स - विनिर्देशन	72072090	72241991	72241999	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
86.	आईएस 8952: 1995	सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए माइल्ड स्टील वायर रॉड के उत्पादन हेतु स्टील इंगोट्स, ब्लूम्स और बिलेट्स - विनिर्देशन	72071190 72071290	72071920	72071990 72072090	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
87.	आईएस 9476 : 1980	कार्बन स्टील रेजर ब्लेड्स के लिए कोल्ड रोलड स्टील स्ट्रिप्स हेतु विनिर्देशन	72119090 72269210 72269930	72269952	72269990	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
88.	आईएस 9962 : 1981	सूई हेतु स्टील वायर के लिए विनिर्देशन	72171010 72171020	72171030 72179019	72179091 72179099	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
89.	आईएस 12367: 1988	वेल्डेड ट्यूब के विनिर्माण हेतु कोल्ड रोलड कार्बन स्टील स्ट्रिप्स / क्वायल के लिए विनिर्देशन	7209 721123 721129 72119012	72119090 722550 72259900 722692	722699 72269940 72269952 72269990	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
90.	आईएस 14331: 1995	उच्च तापमान बोल्टिंग अनुप्रयोगों हेतु स्टील के लिए विनिर्देशन	721410 721491	72149990 72283024	72283029 72284000	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह
91.	आईएस 14491: 1997	कोल्ड फॉर्मिंग के लिए लो कार्बन उच्च शक्ति वाले कोल्ड रोलड स्टील शीट्स और क्वायल्स - विनिर्देशन	7209 721123 721129	72119012 72119090 722550	722692 722699 72269952 72269990	इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 9 माह

## तालिका 2

क्र.सं.	वस्तु एवं सामग्री	अनिवार्य आवश्यकताएं	आईटीसी (एचएस)	प्रभाव की तिथि
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	ट्रांसफॉर्मर्स की स्टेम्पिंग/लेमिनेशन/कोर (वाइंडिंग सहित अथवा रहित)	आईएस 3024:2015 के अनुरूप ग्रेन ओरिएंटेड इलैक्ट्रिकल स्टील शीट और स्ट्रिप अथवा आईएस 648:2006 के अनुरूप कोल्ड रोलड नॉन-ओरिएंटेड इलैक्ट्रिकल स्टील शीट और स्ट्रिप, जिसे बीआईएस चिन्हित मानक से निर्मित किया गया।	85049090	16 मार्च, 2020

[फा. स. 1(6)/2016-टीडी (खंड-III)]

डॉ. रोहित यादव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF STEEL****ORDER**

New Delhi, the 14th February, 2020

**S.O. 756(E).**— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in the supersession of the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2614(E), dated the 22<sup>nd</sup> July, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-

1. Short title, commencement and application. – (1) This order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2020.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
  - (3) It shall apply to steel and steel products specified in column (3) of Table 1 and goods and articles specified in column (2) of Table 2 except steel and steel products manufactured domestically for export which conform to any other specification required by a foreign buyer.
2. Conformity to standards and essential requirements.- (a) Every steel and steel product specified in column (3) of Table 1 shall conform to the corresponding Indian standards specified in column (2) of the said Table with effect from the dates specified in column (5) thereof.
  - (b) Stainless steel pipes and tubes shall be made from the stainless steel products specified in column (3) of Table 1 conforming to Indian Standards specified in column (2) of said Table, bearing Standard Mark and shall be accompanied with the test certificate of input material.
  - (c) Goods specified in column (2) of Table 2 shall conform to the corresponding essential requirement(s) specified in column (3) of the said Table under a Certificate of Conformity from the Bureau as per Scheme-IV of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
3. Compulsory use of Standard Mark.- Every steel and steel products specified in column (3) of Table 1 shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
4. Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the steel and steel products, goods and articles specified in this order.
5. Penalty for contravention. - Any person who contravenes any of the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.
6. Date of effect of amendment or revision in Indian Standards. - This order shall apply to any amendment or revision made by the Bureau to any of the Indian Standards specified in Table 1 with effect from the date notified by the Bureau in this behalf.

**Table 1**

Sl. No.	Indian Standards	Steel or steel products	Indian Trades Classification (Harmonized System) Codes (ITC(HS))	Date of implementation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 1785 (Part-1) : 1983	Specification for plain Hard-drawn Steel Wire For Pre-stressed Concrete; Part 1 Cold - Drawn Stress relieved Wire.	72171010 72179091 72179099	With immediate effect.
2.	IS 1785 (Part-2) : 1983	Plain Hard-drawn Steel Wire for Pre-stressed Concrete; Part 2 as Drawn Wire.	72171010 72179091 72179099	With immediate effect.

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
3.	IS 6003 : 2010	Indented Wire for Pre-stressed Concrete - Specification	72171010 72179091 72179099			With immediate effect.
4.	IS 6006 : 2014	Uncoated Stress Relieved Strand For Pre-stressed Concrete – Specification.	73121030			With immediate effect.
5.	IS 13620 : 1993	Fusion Bonded Epoxy Coated Reinforcing Bars – Specification.	72142090 72159090			With immediate effect.
6.	IS 14268 : 1995	Uncoated Stress Relieved Low Relaxation Seven- wire (ply) Strand for Pre-stressed Concrete – Specification.	73121030			With immediate effect.
7.	IS 277 : 2018	Galvanized Steel Sheets (Plain and Corrugated) – Specification.	72104100 72104900 72123010 72123090			With immediate effect.
8.	IS 2002 : 2009	Steel plates for pressure vessels for intermediate and high temperature service including boilers.	72085110 72085120 72085210 72085220 72111300	72111420 72111490 72119011 72119090	With immediate effect.	
9.	IS 2041 : 2009	Steel Plates for Pressure Vessels Used at Moderate and Low Temperature – Specification.	72085110 72085120 72085210 72085220	72111300 72111420 72111490 72119090	With immediate effect.	
10.	IS 2830 : 2012	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into steel for general structural purposes – Specification.	72061090 72071190 72071290 72071920 72071990			With immediate effect.
11.	IS 1786 : 2008	High strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcement- Specification except for High strength deformed steel bars and wires of sizes less than 8 mm.	72131090 72142090			With immediate effect.
12.	IS 648 : 2006	Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip - Fully processed type-Specification.	72251920 72261920			With immediate effect.
13.	IS 3024 : 2015	Grain Oriented Electrical Steel Sheet and Strip	72251100 72261100			With immediate effect.
14.	IS 15391 : 2003	Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel Sheet and Strip – Semi-Processed Type-Specification.	72251920 72261920 72091720	72091730 72091790	With immediate effect.	
15.	IS 1875 : 1992	Carbon steel billets, blooms, slabs and bars for forgings.	72071120 72071190	72072010 72072090	72249040 72249091	With immediate effect.

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72071220 72071290 720719	72149190 72149990 72159090	72249099 72283029 72286099	
16.	IS 3502 : 2009	Steel Chequered Plates.	72081000 720840 721114 721190	72254019 72259900 72269130	72269190 72269910 72269990	With immediate effect.
17.	IS 2062 : 2011	Hot rolled medium and high tensile structural steel except for bars and rods of diameter or thickness less than 6 mm and structurals below 50 mm x 50 mm x 6 mm).	72082510 72082520 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820 72083830 72083840 72083890	72083910 72083920 72083930 72083940 72083990 72085110 72085120 72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72089000 72111300 72111410	72111420 72111430 72111440 72111450 72111460 72111490 72119012 72119090 72139190 72139990 72149190 72149990 72139090 72139990 72149990 72161000 72162100 72162200 72163100 72163200 72163300 72164000 72165000	With immediate effect.
18.	IS 432 : Part 1 : 1982	Mild Steel and Medium Tensile Steel Bars and Hard-Drawn Steel Wire for Concrete Reinforcement: Part 1 Mild steel and medium tensile steel bars.	72139190 72139990 72149190 72149990 72159090		72279090 72283019 72283029 72286099	With immediate effect.
19.	IS 432 : Part 2 : 1982	Mild steel and Medium Tensile steel bars and Hard-Drawn Steel Wire for Concrete Reinforcement: Part 2 Hard- Drawn Steel Wire.	721710 721790 72299031 72299033		72299040 72299059 72299 090	With immediate effect.
20.	IS 513 (Part 1) : 2016	Cold reduced carbon steel sheets and strip Part 1 Cold Forming and Drawing Purpose (Sixth Revision).	720915 720916 720917 720918 720925 720926 720927	720928 72099000 721123 72119090 72255010 72255020 72259900	72269210 72269220 72269920 72269930 72269940 72269952 72269990	With immediate effect.

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
21..	IS 513 (Part 2) : 2016	Cold reduced low carbon steel sheets and strip Part 2 High Tensile and Multi-phase Steel (Sixth Revision).	720915 720916 720917 720918 720925 720926 720927	720928 72099000 721123 72119090 72255010 72255020 72259900	72269210 72269220 72269920 72269930 72269940 72269952 72269990	With immediate effect.
22.	IS 1079 : 2017	Hot Rolled Carbon Steel Sheet, Plate and Strip.	720825 720826 720827 720836 720837 720838 720839	720840 720852 720853 720854 72089000 72111300 721114	721119 72119090 722530 722540 72259900 722691 722699	With immediate effect.
23.	IS 2879 : 1998	Mild steel for metal arc welding electrodes.	72061090 72071190 72071290 72071920	72071990 72132010 72139110 72139910	72149990 72241000 72249091 72249099 72279090	With immediate effect.
24.	IS 5872 : 1990	Cold Rolled Steel Strips (Box Strappings).	721123 721129 721220	721230 721240 721250 72262030	72269210 72269930 72269952 72269990	With immediate effect.
25.	IS 5986 : 2017	Hot Rolled Steel Sheet, Plate and Strip for Forming and Flanging purposes.	720825 720826 720827 720836 720837 720838 720839 720840 720851	720852 720853 720854 72089000 72111300 721114 721119 72119012 72119090	72253090 72254013 72254019 72254020 72254030 72259900 722691 722699	With immediate effect.
26.	IS 6240 : 2008	Hot Rolled Steel Plate (up to 6 mm) Sheet and Strip for the Manufacture of Low Pressure Liquefiable Gas Cylinders.	720825 720826 720827 720837 720838 720839	720852 720853 720854 72089000 721114 721119	72119090 72253090 722540 72259900 722691 722699	With immediate effect.
27.	IS 7283 : 1992	Hot Rolled bars for production of bright bars and machined parts for engineering applications.	721320 721391 721399 72143000 721491	721499 72159090 72279090 72283021 72283022	72283023 72283029 72286091 72286092 72286093 72286099	With immediate effect.

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
28.	IS 7887 : 1992	Mild steel wire rods for general engineering purposes.	72139190 72139990 72279090			With immediate effect.
29.	IS 10748: 2004	Hot Rolled Steel Strip for Welded Tubes and Pipes.	720825 720826 720827 720836 720837	720838 720839 72089000 721114 721119	72119090 72253090 72259900 722691 722699	With immediate effect.
30.	IS 11513 : 2017	Hot Rolled Carbon Steel Strip For Cold Rolling Purposes.	720825 720826 720827 720836 720837	720838 720839 72089000 721114 721119	721190907 72253090 72259900 722691 722699	With immediate effect.
31.	IS 15647 : 2006	Hot rolled steel narrow width strip for welded tubes and pipes.		721114 721119 72119090		With immediate effect.
32.	IS 7904 : 2018	High Carbon Steel Wire Rods – Specification		72139190 72139990		With immediate effect.
33.	IS 14246 : 2013	Continuously pre-painted galvanized steel sheets and coils.	72107000 72124000		72259900 72109090	With immediate effect.
34.	IS 15965 : 2012	Pre-painted aluminium zinc alloy metallic coated steel strip and sheet (plain).	72107000 72124000		72259900 72109090	With immediate effect.
35.	IS 280:2006	Mild steel wire for General Engineering purposes.		721710 721720 721730		With immediate effect.
36.	IS 1835 : 1976	Round steel wire for ropes.	721710 721720 72179091		72179099 72299033 72299040	With immediate effect.
37.	IS 3975: 1999	Low carbon Galvanized steel wires, formed wires and Tapes for armouring of cables.		721720 721790 72179090		With immediate effect.
38.	IS 4368: 1967	Alloy Steel billets, blooms and slabs for forging for general engineering purposes.		72249091 72249099		With immediate effect.
39.	IS 4454 (part 1) : 2001	Steel wires for mechanical springs, Part 1 cold drawn unalloyed steel wire.	721710 721720 721730 72179099	72292000 72299011 72299012 72299016	72299032 72299033 72299040 72299090	With immediate effect.
40.	IS 4454 (Part 2) : 2001	Steel wire for mechanical springs Part 2: oil hardened and tempered steel wire.		721710 72179091 72179099 72299034		With immediate effect.



(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
41.	IS 4824: 2006	Bead Wires for Tyres .	721710 721730 72179099			With immediate effect.
42.	IS 11169 (Part 1) : 1984	Steels for Cold Heading/Cold extrusion application Part-1 Wrought carbon and low alloy steels.	72132020 72139120 72139920 72141080 72149990	721710 72279040 72279090 72283020 72284000	72286012 72286099 72299040 72299090	With immediate effect.
43.	IS 11587 : 1986	Structural Weather resistant steel .	7208 7209 7211 7212 72141090 72149190 72149990	7216 72253090 72254019 72254020 72254030 722550 722691 722692 72269910	72269920 72269930 72269940 72269951 72269952 72269990 72279090 722870	With immediate effect.
44.	IS 15103 : 2002	Fire resistant steel – Specification.	7208 7209 7211 7212 72141090 72149190 72149990 7216	72253090 72254019 72254020 72254030 722550 722691 722692 72269910	72269920 72269930 72269940 72269951 72269952 72269990 72279090 722870	With immediate effect.
45.	IS 15914 : 2011	High Tensile Strength Flat Rolled Steel Plate (Up To 6 mm), Sheet and Strip for the Manufacture of Welded Gas Cylinder.	720825 720826 720827 720836 720837 720838 720839 720851 720852	720853 720854 7209 7211 72253090 72254019 72254020 72254030 722550	722691 72269910 72269920 72269930 72269940 72269951 72269952 72269990	With immediate effect.
46.	IS 15961 : 2012	Hot Dip aluminium – Zinc alloy metallic coated steel strip and sheet (plain).	72106100 72125090 72259900 72269990			With immediate effect.
47.	IS 15962 : 2012	Structural Steel for Building for Structures with improved seismic Resistance.	720840 720851 720852 721113 721114 7216 721119	72119090 72141090 72149190 72149990 72255030 72259900 72269110	72269120 72269130 72269190 722870	With immediate effect.
48.	IS 6527: 1995	Stainless Steel Wire Rod.	722100			With immediate effect.

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
49.	IS 6528 :1995	Stainless Steel Wires.	72230091 72230092		72230099	With immediate effect.
50.	IS 6603 : 2001	Stainless Steel Bars and Flats.	722211 722219		722220 722230	With immediate effect.
51.	IS 5522 : 2014	Stainless steel sheets and strips for utensils Specification	72191300 72191400 721923 721924 721932	721933 721934 721935 72199012 72199013	72199090 72201290 72202090 72209090	With immediate effect .
52.	IS 6911: 2017	Stainless steel plate, sheet and strip - Specification	7219	7220	-	With immediate effect.
53.	IS 15997: 2012	Low Nickel Austenitic Stainless Steel Sheet and Strip For Utensils and Kitchen Appliances – Specification	72191300 72191400 72192320 72192390 72192421 72192422 72192423 72192429	72192490 72193220 72193290 72193320 72193390 72193420 72193490 72193520	72193590 72199012 72199013 72199090 72201290 72202090 72209090	With immediate effect.
54.	IS 1110 : 1990	Ferrosilicon – Specification	72022100			23 <sup>rd</sup> April, 2020
55.	IS 4409 : 1973	Specification for Ferronickel	720260 00			23 <sup>rd</sup> April, 2020
56.	IS 1029 : 1970	Specification for Hot rolled steel strip (bailing)	72111910 721119 20 721119 30 721119 40	721119 50 721119 60 721119 90 722692 10	7226 92 99 7226 99 51 7226 99 90	23 <sup>rd</sup> April, 2020
57.	IS 2385 : 1977	Specification for Hot-rolled mild steel sheet and strip in coil form for cold-reduced tinplate and cold-reduced black plate	720825 720826 72082710 720827 20 720827 30 720827 40	720827 90 720836 720837 720838 720839 10 7208 3920	7208 39 30 7208 39 40 7208 39 90 7225 30 90 7225 99 00	23 <sup>rd</sup> April, 2020
58.	IS 3039 : 1988	Specification for Structural steel for construction of hulls of ships	7208 40 7208 51 7208 52 7208 90 7211 13 721114 10	721114 20 721114 90 721119 10 721119 20 721119 90 721410 90	7214 91 721499 90 721550 90 721590 90 7216	23 <sup>rd</sup> April, 2020
59.	IS 9550 2001	Bright steel bars - v Specification	721491 10 721550 10 722810 10	722810 90 722830 11 722830 19	722850 10 722850 90 722860 11 722860 12	23 <sup>rd</sup> April, 2020
60.	IS 3748 : 1990	Tool and die steels - Specification	72141090	72159090	72283019	23 <sup>rd</sup> April, 2020

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72149190 72149990 72155090	72281010 72281090 72283011	72283024 72283029	
61.	IS 5517 : 1993	Steel for hardening and tempering - Specification	72084090 72085190 72085290	72089000 72149190 72149990	72299034 72299090 73261910 73261990	23 <sup>rd</sup> April, 2020
62.	IS 7291 : 1981	Specification for High speed tool steels	72042920 7208 7209	72249030 72249040 72249091	72249099 722620 72271000 722810	23 <sup>rd</sup> April, 2020
63	IS 7494 : 1981	Specification for Steel for valves for internal combustion engines	72141090 721491 72149990	72281090 72283029	72284000 722850 72286099	23 <sup>rd</sup> April, 2020
64.	IS 12146 : 1987	Specification for Carbon manganese steel forgings for pressure vessels	72084090 72085190 72085290	72089000 72149190 72149990	72299034 72299090 73261910 73261990	23 <sup>rd</sup> April, 2020
65.	IS 16585 : 2016	Magnetic materials – specification for individual material – Fe based amorphous strip delivered in the semi-processed state.	722519 72261990 72269930 72269990			23 <sup>rd</sup> April, 2020
66.	IS 2831 : 2012	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into structural steel (ordinary quality) - Specification	720610 90 720711 90 720712 90 720719 10 720719 20 720719 90 720720 90			23 <sup>rd</sup> April, 2020
67.	IS 1148: 2009	Steel Rivet Bars (medium And High Tensile) – For Structural Purposes	72149990 72286099			9 months from date of publication of this order.
68.	IS 1673: 1984	Specification for Mild Steel Wire, Cold Heading Quality	72179019	2179091	72179099	9 months from date of publication of this order
69.	IS 1812: 1982	Specification for Carbon Steel Wire for the Manufacture of Wood Screws	72171010 72171020 72171030 72172010	72172020 72172030 72179019 72179091	7217909 72299031 72299033 72299059 72299090	9 months from date of publication of this order
70.	IS 2507: 1975	Specification for Cold – rolled Steel Strips For Springs	72091510 72091520 72091530	72092520 72092530 72092820	72112960 72112990 72119090	9 months from date of publication

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72091590 72091610 72091620 72091630 72091690 72091710 72091720 72091730 72091790 72091810 72091820 72091830 72091890 72092510	72092830 72092890 72099000 72112310 72112320 2112330 72112340 72112350 72112390 72112910 72112920 72112930 72112940 72112950	72255010 72255020 72255030 72259900 72269210 72269220 72269230 72269910 72269920 72269930 72269940 72269952 72269953 72269990	of this order
71.	IS 2255: 1977	Specification for Mild Steel Wire Rod for the Manufacture of Machine Screws (By Cold Heading Process)	72132020 72139120 72139920			9 months from date of publication of this order
72.	IS 3195: 1992	Steel For the Manufacture of Volute And Helical Springs (for Railway Rolling Stock) - Specification	72141010 7214090 72142010 72149190	72149910 72149990 72283019 72283022	72283029 72285090 72286092 72286099	9 months from date of publication of this order
73.	IS 3431: 1982	Specification for Steel for the manufacture of volute, helical and laminated springs for automotive suspension	72141010 72141090 72142010 72149190	72149910 72149990 72283019 72283022	72283029 72285090 72286092 72286099 72282000	9 months from date of publication of this order
74.	IS 3885-Part-1 : 1992	Steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock) Part 1 Flat Sections - Specification	72149190 72149910 72149990	72283019 72283022 72283029	72285090 72286092 72286099	9 months from date of publication of this order
75.	IS 3885-Part-2: 1992	Steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock) Part 2: Rib and Groove Sections- Specification	72142010 72149190 72149910 72149990	7228301972 283022 72283029	72285090 72286092 72286099	9 months from date of publication of this order
76.	IS 4223: 1975	Specification for Steel Wire for Umbrella Ribs	72171010 72172010		72179091 72179099	9 months from date of publication of this order
77.	IS 4224: 1972	Specification for Steel Wire for Staples, Pins And Clips	72171020 72171030	72179099 72299033	72299052 72299059 72299090	9 months from date of publication of this order
78.	IS 4397 : 1999	Cold-rolled Carbon Steel Strips for Ball and Roller Bearing Cages/ Retainers- Specification	7209 721123	721129	72119090	9 months from date of publication of this order
79.	IS 4398 : 1994	Carbon-chromium Steel for the Manufacture of Balls, Rollers and Bearing Races- Specification	72249091 72249099 72279030 72279090	72283019 72283029 72284000 72285090	72286012 72286099 72299059 72299090	9 months from date of publication of this order

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
80.	IS 6902: 1973	Specification for Steel Wire for spokes	72171010 72172010 72179019	72179091 72179099 72299033	72299034 72299040 72299059 72299090	9 months from date of publication of this order
81.	IS 6967: 1973	Specification for Steel For Electrically welded round Link Chains	72071120 72071190 72071220 72071290 72071920 72071990	72072010 72072090 72141090 72142090 72149190 72149990	72249091 72249099 72284000 72285090 72286099	9 months from date of publication of this order
82.	IS 7226: 1974	Specification for Cold rolled medium, high carbon and low alloy steel strip for general engineering purposes	72112310 72112320 72112330 72112340 72112350	72112390 72112910 72112920 72112930 72112940 72112950	72112960 72112390 72269210 72269930 72269952 72269990	9 months from date of publication of this order
83.	IS 7557: 1982	Specification for Steel Wire: (Up to 20 mm) for the manufacture of cold-forged rivets	72139120 72139190 72139920 72139990 72149990 72171010	72179019 72179091 72179099 72279040 72279090 72284000	72285090 72286099 72299033 72299040 72299059 72299090	9 months from date of publication of this order
84.	IS 8052 : 2006	Steel ingots, billets and blooms for the production of springs, rivets and screws for general engineering applications – Specification	72071120 72071190 72071220	72071290 72071920 72071990 72072010	72072090 72241000 72241991 72241999	9 months from date of publication of this order
85.	IS 8951: 2001	Steel Cast Billet Ingots, Billets and Blooms for production of High Carbon Steel Wire Rods- Specification	72072090	72241991	72241999	9 months from date of publication of this order
86.	IS 8952: 1995	Steel ingots, blooms and billets for production of mild steel wire rods for general engineering purposes - Specification	72071190 72071290	72071920	72071990 72072090	9 months from date of publication of this order
87.	IS 9476 : 1980	Specification for Cold rolled steel strips for carbon steel razor blades	72119090 72269210 72269930	72269952	72269990	9 months from date of publication of this order
88.	IS 9962 : 1981	Specification for Steel Wire for Needles	72171010 72171020	72171030 72179019	72179091 72179099	9 months from date of publication of this order
89.	IS 12367: 1988	Specification for Cold-rolled Carbon Steel Strips/ Coils for Manufacture of Welded Tubes	7209 721123 721129 72119012	72119090 722550 72259900 722692	722699 72269940 72269952 72269990	9 months from date of publication of this order

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
90.	IS 14331: 1995	Steels for High Temperature Bolting Applications - Specification	721410 721491	72149990 72283024	72283029 72284000	9 months from date of publication of this order
91.	IS 14491: 1997	Low carbon high strength cold rolled steel sheets and coils for cold forming- Specification	7209 721123 721129	72119012 72119090 722550 72259900	722692 722699 72269952 72269990	9 months from date of publication of this order

Table 2

Sl. No.	Goods and Articles	Essential Requirement(s)	ITC (HS) Code	Date of implementation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Stampings/ laminations/ cores of transformers (with or without winding)	Made from BIS standard marked Grain Oriented Electrical Steel Sheet and Strip conforming to IS 3024:2015 or Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip conforming to IS 648:2006	85049090	16 <sup>th</sup> March, 2020

[F. No. 1(6)/2016-TD (Vol. III)]  
Dr. ROHIT YADAV, Jt. Secy.